

To,
The District Judge

Request-96

105 Paizabad

~~105~~
No-12279 ID-2585/Delran(A) dated 2/9/2000

Subject - Grant of permission to Sri Lallee Singh
J.M., Paizabad, to sell his car.

Sir,

With reference to your order No-1265/L

-42-99 dated 27.5.2000, on the above subject

I am directed to say that the Court has been

pleased to accord permission to Sri Lallee Singh

Judicial Magistrate, Paizabad, to sell

Maruti car No-UP-78H/8332 to Sri Virendra

Kumar Singh & Sri Dinesh Singh of Village

Gaddopers, Thana - Cantt Distt - Paizabad for

Rs 1,41,000/-

Sri Singh may kindly be
informed accordingly.

Yours faithfully,


Dy. Registrar

D.R.(M)

order dt. 28.8.2000,

placed below.

May issue?

188

31.8.2000

R.K. Kumar
1-9-2000



J.P.
Arora

51
X/15/2585
07/1/2000

Request-96

8808

File No. IV/2585
Serial

100
29/1/2000

प्रेषक,

लल्लू सिंह,
प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फैजाबाद।

सेवा में,

निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

8
21/7/2000

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद।

विषय :- माननीय न्यायालय के पत्रांक संख्या 6610/चार-
2585/एड. ए. मई 9, 2000 द्वारा अधोक्षित
स्पष्टीकरण।

=====

महोदय,

यथोक्त पत्रांक के सन्दर्भ में यह कहना है कि
जिस समय मेरे द्वारा कार का स्थानान्तरण अपने नाम
कराया गया था उस समय मैं न्यायिक सेवा में
नव-नियुक्ति अधिकारी था, तथा मैंने सद्भावना
पूर्वक यह विश्वास किया था कि कार का यह अंतरण
गिफ्ट नहीं है अतः इसीलिए मेरे द्वारा इसे आयकर
विवरणों में दार्जित नहीं किया गया। चूंकि पत्नी
§ DONGER § द्वारा आयकर विवरणों में दाखिल
की जाती है। अतः उनके द्वारा आयकर विवरणों
दाखिल कर इस संव्यवहार को दार्जित नहीं किया
गया, ऐसा भ्रमवत् हुआ। भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं
होगी। मैं इसके प्रति वचन बद्धता ज्ञापित करता हूँ।

L.B.K.
21/7/2000

न्यायाधीश कार्यालय जिला न्यायाधीश

फैजाबाद

पत्र संख्या 1265/17-43-93 दिनांक

अप्रसारित 21/7/2000

Signature

जिला न्यायाधीश, फैजाबाद

S.R.M.

Signature

29 MAY 2000

अतः मेरी इस भूल के लिए मुझे माफ करते हुए
माननीय न्यायालय से तत्संदर्भ में अनुमति दिलाने की
कृपा करें।

सादर।

भवदीय

hsh 26.05.2000

॥ लल्लू सिंह ॥

प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फैजाबाद।